

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 148]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2015—चैत्र 20, शक 1937

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2015

क्र. एफ-35-69-2013-दो-सी-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2014 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (भरती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2014 का प्रकाशन किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (भरती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2014 की अनुसूची-तीन के पश्चात् संलग्न अनुसूची-चार प्रतिस्थापित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. गुप्ता, सचिव.

अनुसूची-चार

प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभागवार (खण्डवार) स्वीकृत पदों की संख्या

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	कुल स्वीकृत पद (3)	फेज-एक (4)	फेज-दो (5)
1	संचालक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सचिव, गृह-पदेन)	1	1	0
2	शीघ्रलेखक	1	1	0
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	0
4	चालक	2	2	0
5	भृत्य	3	2	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क. प्रशासनिक विभाग (खण्ड) :				
1	उप संचालक (प्रशासन)	1	1	0
2	सहायक संचालक	2	1	1
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	2	1	1
4	भृत्य	2	2	0
ख. आई ई सी तथा मीडिया विभाग (खण्ड):				
1	उप संचालक (आई ई सी तथा मीडिया)	1	1	0
2	सहायक संचालक	2	1	1
3	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	2	1	1
4	भृत्य	1	1	0
ग. प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि :				
1	उप संचालक (प्रशिक्षण तथा क्षमता वृद्धि)	1	1	0
2	सहायक संचालक	2	1	1
3	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	2	1	1
4	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर आपरेटर	3	2	1
5	भृत्य	2	2	0